

1011

2015

HINDI
(MODERN INDIAN LANGUAGE)

(New Course)

Full Marks : 100

Pass Marks : 30

Time : Three hours

*The figures in the margin indicate full marks
for the questions.*

परीक्षार्थी खण्ड 'क' और खण्ड 'ख'

अथवा

खण्ड 'क' और खण्ड 'ग' के उत्तर एक ही खाले में दें ।

GROUP - A

समक

पूजाक : 75

1. निम्नलिखित प्रश्नों के अति संक्षिप्त उत्तर दो :

2 × 6 = 12

- (क) "आज तुम्हारे नेताजी की आँखों पर चश्मा नहीं है ?" – किसने किससे ऐसा पूछा था ?
- (ख) कैप्टन क्यों बार-बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था ?
- (ग) चश्मेवाले की शारीरिक स्थिति और वेशभूषा के बारे में बताओ ।
- (घ) बालगोबिन भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी ?
- (ङ) "सूरदास" अब्बला हम घोरी, गुर चौंटी ज्यों पागी" – इसका भाव क्या है ?
- (च) कन्यादान के समय माँ को अपनी बेटी 'अन्तिम पूंजी' क्यों लग रही थी ?

2. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दो :

3 × 7 = 21

- (क) हिन्दी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका को किस प्रकार प्रभावित किया था ?
- (ख) 'एक कहानी यह भी' की लेखिका ने अपनी माँ के बारे में क्या-क्या कहा है ?

- (ग) सुई-घागे के आविष्कार के बारे में 'संस्कृति' शीर्षक पाठ में क्या-क्या कहा गया है ?
- (घ) गोपियों कृष्ण को 'हारिल की लकड़ी' क्यों कहती हैं ?
- (ङ) लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या-क्या विशेषताएँ बतायीं ?
- (च) 'उत्साह' शीर्षक कविता में क्या-क्या करने के लिए बादल से कहा गया है ?
- (छ) पठित कविता के आधार पर फागुन की सुन्दरता और मादकता का वर्णन करो ।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के सम्यक् उत्तर दो :

4 × 3 = 12

(क) खेतीबारी से जुड़े गृहस्थ बालगोबिन भगत अपनी किन् चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे ?

(ख) लेखक ने फ़ादर कामिल बुल्के को 'मानवीय करुणा की दिव्य चमक' क्यों कहा है ?

(ग) "और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ़ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊँचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं

उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए ।"

— इन पंक्तियों का तात्पर्य क्या है ?

परिपूरक पाठ

4. सटीक उत्तर दो :

- (क) भोलानाथ का अपने पिता के साथ किस प्रकार का जुड़ाव था ? 3
- (ख) भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था ? 3
- (ग) अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया था ? 4

व्याकरण और रचना

5. (क) निम्नलिखित किन्हीं दो शब्दों के दो-दो पर्यायवाची शब्द लिखो : 1 × 2 = 2
- अमृत, इच्छा, गंगा, मेघ .
- (ख) निम्नलिखित किन्हीं दो शब्दों के विलोम शब्द लिखो : 1 × 2 = 2
पूर्णमा, आप्पन्तर, विकर्षण, कनिष्ठ
- (ग) निम्नलिखित किन्हीं दो शब्द-द्वयों के अर्थ का अन्तर बताओ : 1 × 2 = 2
अवधि-अवधी, नीर-नीड़, पर्य-पुरुष, अरि-अरी
- (घ) निम्नोक्त किन्हीं दो शब्द-समूहों के लिये एक-एक शब्द लिखो : 1 × 2 = 2
- जिसके पार देखा जा सके
 - जिसे धय नहीं है
 - जो किये गये उपकारों को मानता है
 - जल में जनमनेवाला ।

(क) निम्नलिखित किन्हीं दो शब्दों के विग्रह कर समूह के नाम लिखो :

1 × 2 = 2

यथासंभव, नीलगाय, चौराहा, पीताम्बर

(ख) निम्नलिखित किन्हीं दो मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो :

1 × 2 = 2

अक्ल पर पत्थर पड़ना, अपना उल्लू सीधा करना, आस्तीन का साँप, उल्टी गंगा बहाना

(ग) निम्नलिखित किसी एक वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करो :

1

(i) परिश्रमी व्यक्ति को सफलता मिलती है ।

(ii) मैंने एक बूढ़ा आदमी देखा था ।

(घ) निम्नांकित किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखो :

1 × 2 = 2

(i) आप मेरे साथ आओ ।

(ii) भाइयों और बहनों ! आपलोग काम में लग जाइए ।

(iii) तेरे को मुझसे क्या काम है ?

(iv) भारतवर्ष ने उन्नति करी है ।

6. अपने जीवन का लक्ष्य बताकर मामाजी को एक पत्र लिखो ।

5

अथवा

अपने पिताजी की अस्वस्थता हेतु आधे दिन की छुट्टी माँगते हुए अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिका को एक प्रार्थना-पत्र लिखो ।

9. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो :

“स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम अत्यन्त आवश्यक है । जो व्यक्ति नित्य व्यायाम करते हैं, वे सदैव स्वस्थ रहते हैं । व्यायाम प्रातःकाल अथवा सायंकाल खुले वातावरण में करना चाहिए । व्यायाम करने के लिए यही उत्तम समय है । व्यायाम तभी करना चाहिए जब शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो । रोगी मनुष्य केवल सैर करने का आनन्द ले तो अच्छा है । व्यायाम करने में सावधानियाँ बरतनी चाहिए । कभी-कभी अनुचित ढंग से किया गया व्यायाम हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है । योगासन तथा शारीरिक अभ्यास प्रशिक्षण लेकर ही करना चाहिए । भूख और प्यास में व्यायाम कदापि नहीं करना चाहिए । व्यायाम करने के एकदम बाद कभी नहीं नहाना चाहिए । व्यायाम सदैव अपनी शक्ति के अनुसार ही करना चाहिए । व्यायाम करने के अनेक लाभ हैं । इससे हाथ, पैर और शरीर के अन्य अंग बलिष्ठ हो जाते हैं, तो इससे शरीर में स्फूर्ति भी आती है । व्यायाम से पाचन-क्रिया ठीक रहती है, समय पर भूख लगती है । साथ ही इससे शरीर में रक्त का निर्माण भली-भाँति होता है तथा रक्त का संचार भी तेज़ गति से होता है । अतः हमें नित्य प्रति थोड़ा-बहुत व्यायाम अवश्य करना चाहिए ।”

प्रश्न :

- (i) किस समय व्यायाम करना चाहिए ? 1
- (ii) अस्वस्थ व्यक्ति के लिए किस प्रकार का व्यायाम ठीक रहता है ? 1
- (iii) कौन-कौन से व्यायाम प्रशिक्षण लेकर ही करने चाहिए ? 1
- (iv) व्यायाम करने से हमारे शरीर को क्या-क्या लाभ होते हैं ? 2

10. शृंगार अथवा वीर रस का सोदाहरण परिचय दो । 3

11. उपमा अथवा रूपक अलंकार का सोदाहरण परिचय प्रस्तुत करो । 2